

# हमारा वतन

देश का अपना अखबार

हमारा وطن हस्त रचित

संस्थापित 1965

www.hamarawatan.com FOLLOW US:- [Facebook](#) Hamarawatan [Instagram](#) Hamarawatan65 [Twitter](#) Hamarawatan3 [YouTube](#) Hamarawatan

वर्ष- 58

अंक-26

जयपुर, सोमवार, 27 जून, 2022

वार्षिक शुल्क 200 रुपये (एक प्रति 4 रु.)

पृष्ठ संख्या 4



संस्थापक  
स्व. श्री राजेन्द्र  
कुमार 'अजेय'  
स्वतंत्रता सेनानी



संरक्षक  
बाबू लाल सैनी



सम्पादक  
राम गोपाल सैनी

## विशाल पूर्व सैनिक और गनमैन गार्ड स्नेह मिलन समारोह का हुआ भव्य आयोजन

संज्ञा कंवर बाईसा के पादोत्सव का हुआ आयोजन

कैप्टन पृथ्वी सिंह नाथावत ने उदारता देश के वीरों के सम्मान का बीड़ा

सभी पूर्व सैनिक और गनमैन गार्ड ने किए साईं मंदिर के दर्शन



जयपुर (हमारा वतन) राजधानी जयपुर चौमू तहसील के ग्राम ईटावा भोपजी के श्री शिरडी साईं मंदिर के पास स्थित नाथावत फार्म हाउस में विशाल पूर्व सैनिक और गनमैन गार्ड स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन थल सेना से रिटायर्ड कैप्टन और श्री शिरडी साईं मंदिर के महंत पृथ्वी सिंह नाथावत के सानिध्य में हुआ।

गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 75 डिग्री लेने वाले डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत, पूर्व सैनिक अजय सिंह श्यामपुरा, जालोता सरपंच श्याम प्रताप सिंह राठौड़ आदि रहे। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर जयपान सिंह ने कहा कि पृथ्वी सिंह नाथावत जो ने जो सैनिकों के सम्मान करने का बीड़ा उठाया है, वह काबिले तारीफ है। ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। कर्नल बजरंग सिंह ने कहा कि देश सेवा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पर जाकर ही देश सेवा की जाए, घर पर रहकर भी देश सेवा की जा सकती है।

किया गया। पूरा कार्यक्रम स्थल वंदे मातरम और भारत माता के जयकारों से गुंज उठा। स्नेह मिलन समारोह में पूरे राजस्थान के कोने कोने से पूर्व सैनिक और गनमैन गार्ड पधारे। समारोह में किक बाँविसंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले भाई बहन का भी दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। सभी अतिथियों ने बैड बाजे के साथ कार्यक्रम स्थल से भरी दुपट्टी में पैदल चल कर साईं मंदिर में दर्शन किए और पास ही स्थित संज्ञा बाई कंवर की स्थली पर दर्शन कर सुख शांति की प्रार्थना की।

कैप्टन पृथ्वी सिंह नाथावत की वैवाहिक वर्षगांठ भी थी। शुभचिंतकों ने माला और गुलदस्ते भेंट कर शुभकामनाएँ दीं। अंत में सभी ने भोजन प्रसादी ग्रहण की।

समारोह में रविन्द्र सिंह नाथावत, भूपेंद्र सिंह



समारोह के मुख्य अतिथि सेना मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर जयपान सिंह, सेना मेडल से सम्मानित कर्नल बजरंग सिंह तंवर, गनमैन गार्ड कल्याण समिति के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद यादव रहे। विशिष्ट अतिथि गनमैन गार्ड कल्याण समिति के उपाध्यक्ष पदम सिंह, राजपूत सभा लुहाकाना खुर्द के अध्यक्ष अर्जुन सिंह शेखावत, भारत सरकार के कैबिनेट सिक्योरिटीज निदेशक शक्ति दान सिंह शेखावत, भारतीय सेना में सेवा कार्य करते हुए

कर्नल बजरंग सिंह ने रिटायर्ड कैप्टन पृथ्वी सिंह नाथावत को उत्कृष्ट कार्य अवार्ड से भी नवाजा

कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा माँ शारदा, गणेशजी और साईं बाबा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की। सेना के धर्मगुरु कैप्टन श्रीराम शर्मा द्वारा मंत्रोच्चार कर किया गया।

इस दौरान सभी पूर्व सैनिक और गनमैन गार्ड का बैड बाजे के साथ तिलक और माला पहनाकर स्वागत

आयोजक कैप्टन पृथ्वी सिंह नाथावत ने कहा कि पूर्व सैनिक और गनमैन गार्ड हमारे देश के हीरो हैं, इनकी वजह से ही आज हम घर में सुख शांति से सोते हैं और निश्चित होकर अपनी बात को रख पाते हैं। इनका मान सम्मान करके आज मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ की साईं राम ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ। आप सभी लोग कार्यक्रम में आए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस दिन

नाथावत, जितेन्द्र सिंह नाथावत, नवदीप सिंह नाथावत, अजली नाथावत, आयुषी नाथावत, डॉ. हरी वल्लभ सैनी, दीपेन्द्र सिंह चन्द्रावत, दिलीप सिंह महरोली, महेंद्र सिंह जाखली, अजयश्री राठौड़, निशा शेखावत, सुमन कंवर जाखली, विक्रम सिंह शेखावत, सुमेर सिंह देवडा, विक्रम सिंह चन्द्रावत, वीरेंद्र सिंह चन्द्रावत, गोपाल सिंह खोहर, अमर सिंह तंवर, जय सिंह गाँड, भवानी सिंह लोहरवाड़ा आदि लोगों ने शिरकत की।

### विधायक रामलाल शर्मा ने ली बूथ अध्यक्षों के साथ मीटिंग, संगठन के कार्यों को पूर्ण करने पर दिया जोर

चौमू (हमारा वतन) सुभाष सर्किल स्थित भाजपा कार्यालय पर विधायक रामलाल शर्मा ने नगर मंडल चौमू के बूथ अध्यक्षों के साथ मीटिंग ली। मीटिंग में

निर्देशित किया कि संगठन द्वारा बताए गए कार्यों को समय पर पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता संगठन द्वारा बताए गए कार्यों को तत्परता से समय पर पूरा करें और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करें। मीटिंग में विधानसभा प्रभारी सीताराम चोटिया, नगर मंडल अध्यक्ष गजानंद कुमावत ने अध्यक्षों को बूथ कार्यकारिणी और पत्रा प्रमुख आगामी 2 दिवस में बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।



विधायक रामलाल शर्मा ने संगठन द्वारा दिए गए कार्यों को समय पर पूर्ण करने पर जोर दिया और पार्टी के पदाधिकारियों को

### लोनिया हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी सेंटर

कचौलिया रोड, मगध नगर, बचपन स्कूल के पास चौमू, जयपुर

क्या आप अभी तक मातृत्व सुख से वंचित हैं ? तो हमसे मिलें !

सुरक्षित नॉर्मल, सिजेरियन डिलीवरी

निदेशक  
डॉ. धर्मराज सिंह लोनिया



24 घंटे  
इमरजेंसी  
सुविधा

निःसंतानता अब अभिशाप नहीं, पाएँ मातृत्व का सुख !

संपर्क - 9636247286, 9928747286

फ्री  
परामर्श

सभी प्रकार की जांच और दवाइयों पर 20 प्रतिशत की छूट

## चौमू का इतिहास

गतक से आगे....

भाग 9

चौमू के गढ़ में 100 सैनिक बुड़सवार हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। जयपुर नरेश माधोसिंह के समय चौमू के राजा देवसिंह रियासत जयपुर में मंत्री थे। सवाई जयसिंह के समय चौमू के मोहनसिंह ने जयपुर को बसाने एवं उसके साथ युद्धों में भाग लिया था।

मराठा पिंडारियों के समूह ने चौमू पर हमला किया तब कृष्ण सिंह ने मुकाबला करके उसे दूर तक भगा दिया था। पटनों की सेना चौमू पर चढ़ी तो उसे भी नाथावत वीरों ने भगा दिया था। मोहन सिंह के शासन में सस्ताई इतनी थी कि आदमी दो पैसे में पेट भर लेता था। महारानी उदावत जी ने मोती महल बनवाया। बाऊसा फतह कुंवर जी ने भी वहां पर मंदिर बनवाया। राजा मोहन दास की चौथी रानी रतन कंवर सोलंकी जी ने विक्रम संवत् 1726 में वहां पर लखड़ी बावड़ी (बंजारों की) का 14 वर्ष तक जीर्णोद्धार करवाया। सन 1764 में कामदार शहदत खंडेलवाल जी ने सीता राम जी का मंदिर बनवाया था। चौमू के आम, बेर, सब्जियां बहुत प्रसिद्ध हैं। यहां के बागवानों ने जयपुर के बाग बगोचे लगावाए थे। चौमू टिकाने के क्रमशः राव गोपाल सिंह, ठाकुर नाथू सिंह, ठाकुर मनोहर दास जी, ठाकुर करण सिंह, ठाकुर सुख सिंह, ठाकुर मोहन सिंह, ठाकुर जोध सिंह, ठाकुर रघुनाथ सिंह, ठाकुर रतन सिंह, ठाकुर रंजीत सिंह, ठाकुर किशन सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर बहादुर सिंह, ठाकुर देवी सिंह इत्यादि ने शासन किया था।



प्रियस कुमार उपपल (मुद्राशास्त्री) निदेशालय, पुरतत्व एवं संहलतय विभाग-जयपुर

श्रेय अगले अंक में

## हुड़कीबौल की अनोखी परंपराओं से करते हैं खेतों में गुड़ाई निराई: डॉ सोनी

उत्तराखंड (हमारा वतन) उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेतों में काम करने की अनोखी परंपराएं देखने को मिलती हैं जहां आज लोग पलायन कर रहे हैं वहीं आज भी चमोली देवाल के सवाड गांव के लोग हुड़कीबौल से खेतों की गुड़ाई, निराई व रोपाई करते हैं। पर्यावरणविद वृक्षमित्र डॉ त्रिलोक चंद सोनी कहते हैं जब गांव के लोगों के पास आय का कोई खेत नहीं था तो वे खेतों पर निर्भर रहते थे और उनका भोजन का खेत खेत होते थे उनके खेत भी बड़े बड़े होते थे उनमें गुड़ाई, निराई व रोपाई में कई दिन लग जाते थे। उस समय के लोग खेतों में काम करने के लिए प्रत्येक परिवार का एक सदस्य सम्मिलित होकर बारी बारी से हर परिवार के खेतों की गुड़ाई, निराई व रोपाई करते हैं ऐसे करने से एक दिन एक परिवार का दूसरे दिन दूसरे परिवार का इसी प्रकार गांव के हर परिवार के लोगों का खेतों का काम किया जाता था उस समय मनोरंजन के साधन नहीं

थे तो इसके लिए एक हुड़का बजाने वाला होता था जो हुड़के के साथ राजुला मालुशाही, राजा हलराही, गोपीचंद व अन्य गीत गाकर गुड़ाई, निराई व रोपाई करने वाली महिलाओं का मनोरंजन किया करता था उस जोश में महिलाएं एक दिन में कई खेतों की गुड़ाई, निराई व रोपाई करते हैं इसे हुड़कीबौल के नाम से जाना जाता है। डॉ सोनी कहते हैं खेतों की गुड़ाई, निराई व रोपाई करते हैं खेत खलिहान बंजर होते जा रहे हैं अपने स्थानीय उत्पादन महुवा, झंगोरा, गौथ, कौड़ी, भट्ट व दाले नहीं बौ रहे हैं इस कारण अपने पूर्वजों

की हुड़कीबौल की परम्पराएं भी समाप्त होते जा रही हैं आज इसे बचाने की जरूरत है। सेवानिवृत्त तहसीलदार जयबीर राम बधाणी कहते हैं जो लोग गांव में हैं वे आज भी अपने पूर्वजों की कई परंपराएं जीवित रखे हैं इन परम्पराओं को हमें अपने आनेवाली पीढ़ी के लिए जिंदा रखने होंगे हुड़का बादक तिलोक राम कहते हैं हुड़कीबौल की रीति रिवाज हमारी पूर्वजों की देन हैं आज धीरे धीरे ये परम्परा समाप्त की ओर हैं मेरा प्रयास है इसे में संरक्षित करके अपने आनेवाली पीढ़ी के लिए रखू। पूर्व प्रधान बसंती देवी कहती हैं हमारे पूर्वजों की दीये हुड़कीबौल की रीति रिवाज समय के साथ बची रह सके। कार्यक्रम में इंद्रसिंह, गंगाराम, तिलोककाम, जयवीर बधाणी, सचिन, चेतन सोनी, हरलू देवी, राजुला देवी, देवकी देवी, दीपा देवी, महेशी देवी, बिरमा देवी, पूरुम देवी, कलावती देवी, दीपा देवी, जसुली देवी, महेशी देवी, रामेशराम हेमचंद्र हररु आदि रहे।



### हल

हल बहरखाल नहीं मिला है जिन्दगी के उलझे सवालों का ऊपर से चिंतामन हूँ मैं क्या होगा बेतरतीब खयालों का

पेट के आगे बेबस दुनियाँ भाग रही है बरबस दुनियाँ प्रश्न जस का तस है खड़ा ये प्रश्न है महज निवालों का हल बहरखाल नहीं मिला है जिन्दगी के उलझे सवालों का

फिकर महज खुद तक सीमित है पर दूजों से चाह असीमित है मैं सोच - सोच के परेशा हूँ क्या होगा भोले- भालों का हल बहरखाल नहीं मिला है जिन्दगी के उलझे सवालों का

कठिन प्रश्न है कठिन डार है हर एक बात में अगर - अगर है जिन्दगी पे साया है मानो अनेकानेक भ्रमजालों का हल बहरखाल नहीं मिला है जिन्दगी के उलझे सवालों का



सिद्धार्थ गोरखपुरी

### 7 जुलाई से राजस्थान में होगी RSS प्रांत-प्रचारकों की बैठक: सर संघचालक मोहन भागवत समेत सह-संस्थापक रहेंगे मौजूद

जयपुर (नि.सं.) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की अखिल भारतीय स्तर की 'प्रांत प्रचारक बैठक' 7 से 9 जुलाई तक बुधुन में होने जा रही है। इस बैठक में देशभर के सभी प्रांत प्रचारक और सह-प्रांत प्रचारक हिस्सा लेने राजस्थान आगए। सर संघचालक डॉ मोहन भागवत, सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले समेत सभी सह संस्थापक डॉ कृष्णगोपाल, डॉ मनमोहन वैद्य, सीआर मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त और सभी कार्य विभाग प्रमुख, सह प्रमुख बैठक में मौजूद रहेंगे।

### ऑनलाइन

हुआ सपना साकार भारत हुआ डिजिटल आया ऑनलाइन का जमाना भैया डिजिटल हुआ देश अपना हुआ बंद मिलना-जुलना अब कहीं नहीं आना-जाना चारों ओर फैला है वीराना लेन-देन अब आसान हुआ घर बैठे-बैठे सब मंगवाना हुई जब से रसेाई ऑनलाइन बहुरे हुई आजाद नेटमेड्स है अब आया दवाई भी घर पहुँचाता अनजान पर कुछ भी करो आउट दौ घंटे में डिजीलिवर फूल हुए ऑनलाइन मिठाई भी जॉमेटो से लगी आने सिवांगी घर पहुँचाए पकवान लज्जी वेटर टिप भी अब करवाता फोनपे दानपात्र पर भी वयुआर कोड हुआ चप्पा अफसोस तब हुआ जब आरती भी हुई ऑनलाइन और प्रसाद डिजिटल बच्चे बार-लौहार पैर छुए वचुअल्ली केसा यह जमाना है आया? रोमांटिक डेट भी अब हुई डिजिटल ब्याह सगाई भी लगे होने ऑनलाइन ड्र है कहीं बच्चे भी ना हो जाए ऑनलाइन पर क्या सही मायने में तरकी हुई है? सिर्फ सुविधा के नाम पर आलसी हुआ जमाना!



योगिता जोशी अर्जुन (राजस्थान)

## डाकघर बचत योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर हुआ मण्डल स्तरीय मेले का आयोजन

जयपुर (हमारा वतन) चौमू डाक उपखंड में डाकघर बचत योजनाओं के प्रचार - प्रसार हेतु मण्डल स्तरीय मेले का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि सीकर सांसद सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि सांसद सुमेधानन्द सरस्वती ने डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं में आमजन को खते खुलवाने हेतु अपील की की कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गोविन्दगढ़ पंचायत समिति प्रधान रामस्वरूप यादव तथा अध्यक्षता अधीक्षक डाकघर जयपुर देहात मण्डल मोहन सिंह मीना रहे। मोहन सिंह मीना ने डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं सुझाए समृद्ध योजना, डाक जीवन बीमा, अटल पेंशन आदि के बारे में विस्तार से बताया तथा इस संदर्भ में विभाग द्वारा राजस्थान के कॉमिडी किंग दीपक मीणा उर्फ पन्ना सेप्ट द्वारा अभिनीत विडियो भी मुख्य अतिथि सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा जारी किया गया। इस दौरान फिल्म के कलाकार



रितेश सिसोदिया, पन्ना सेप्ट उर्फ दीपक मीणा, डीपी सिंह चितोड़ा, कैमरा मैन रणजीत सिंह डेमो, निदेशक नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान विभाग की तरफ से आनंद सिंह सहायक अधीक्षक डाकघर ने अतिथियों के लिए स्वागत उद्बोधन दिया तथा सुनील मीणा निरीक्षक डाकघर चौमू ने डाक विभाग की तरफ से अतिथियों को उनकी गरिमामय उपस्थिति हेतु आभार व्यक्त किया। भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संघ के जयपुर देहात मंडलीय

सचिव सुभाष चन्द्र शर्मा सिरसली और सहायक महासचिव मालीराम बधाणी ने बताया कि मेले में जयपुर दक्षिण, चौमू सब डिवीजन और शाहपुर सब डिवीजन के डाक कर्मचारियों ने भाग लिया। मेले में अतिथियों के लिए स्वागत उद्बोधन दिया तथा सुनील मीणा निरीक्षक डाकघर चौमू ने डाक विभाग की तरफ से अतिथियों को उनकी गरिमामय उपस्थिति हेतु आभार व्यक्त किया। भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संघ के जयपुर देहात मंडलीय



### रक्तदान जीवनदान फाउंडेशन के रक्तवीरों ने अनजान के लिए किया रक्तदान

जयपुर (हमारा वतन) रक्तदान जीवनदान फाउंडेशन के रक्तवीरों ने अनजान के लिए रक्तदान किया। फाउंडेशन सह संचालक राजेंद्र चौधरी ने बताया कि स्क्वैड में किसी मरीज को प्लेटलेट्स की, और किसी अन्य बच्चे को ऑपरेशन हेतु ब्लड की सख्त जरूरत पड़ने पर फाउंडेशन के नए रक्तवीर अनिल ने अपना पहला रक्तदान किया। 20 वर्षीय कैम्प पीडित व्यक्ति के लिए फाउंडेशन के मुख्य सदस्य शिवसिंह घूमना ने 18 वीं बार रक्तदान के रूप में प्लेटलेट्स डोनेशन की। साथी रक्तवीर भीमसिंह घूमना ने रक्तवीरों को हॉस्पिटल लाने व ले जाने में अपने निजी वाहन से देर रात तक साथ रहे।

## कथक नृत्य कला केन्द्र (लावणी कला केन्द्र)


आर्ट एण्ड म्यूजिकल सोसायटी



## संगीत एवं नृत्य प्रशिक्षण केन्द्र

नृत्य : कथक, राजस्थानी लोकनृत्य, फिल्मी, वेस्टर्न, बलें (नृत्यनाटिका) आदि गायन : शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, भजन, गीत, गजल एवं राजस्थानी लोक गीत वादन : तबला, हारमोनियम, ढोलक, गिटार व सिंथेसाइजर

नोट : कथक नृत्य के डिप्लोमा के लिए सम्पर्क कर।



प्रतियोगिता व संगीत परिक्षाओं का एक मात्र स्थान

सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्टेज शो, महिला संगीत की विशेष तैयारी

सी-27-ए, राधा विहार, देवी नगर के सामने, पिलर नं. 80, न्यू सांगानेर रोड, सांडाला, जयपुर

मो: 982905974, 0141-2290074

## जॉब्स

- राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (आरएसएमएसएसबी) पद जूनियर इंजीनियर एपीकल्चर, पद संख्या 189, अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022
- इंडियन एयर फोर्स, पद अग्निवीर, पद संख्या घोषित नहीं, अंतिम तिथि 24 जुलाई 2022
- असम राइफल्स, पद हकलदार कलर व ट्रेड्समैन, पद संख्या 1380, अंतिम तिथि 20 जुलाई 2022
- आइटीबीपी, पद हेड कॉन्स्टेबल, पद संख्या 248, अंतिम तिथि 7 जुलाई 2022
- आइटीबीपी, पद एसआई स्टेनोग्राफर, पद संख्या 38, अंतिम तिथि 7 जुलाई 2022
- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएमएसएसबी) पद पीटीआई, पद संख्या 5546, अंतिम तिथि 22 जुलाई 2022
- सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पद जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, पद संख्या 210, अंतिम तिथि 10 जुलाई 2022
- एयर ट्रेफिक कंट्रोल, पद जूनियर एग्जीक्यूटिव, पद संख्या 400, अंतिम तिथि 14 जुलाई 2022



### Shehnaaz Gill Net Worth

## शहनाज गिल एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए चार्ज करती हैं लाखों, करोड़ों में हैं नेट वर्थ

पंजाब की कटरीना और क्यूटेस की तुलना जैसे नामों से मशहूर एक्ट्रेस शहनाज गिल आज किसी पहचान को मोहताज नहीं हैं। शहनाज अक्सर अपने बेबाक और चुलबुले अंदाज से लोगों का दिल जीत लेती हैं। एक्ट्रेस की फोटोज-वीडियोज सोशल मीडिया पर आते ही छा जाती हैं। शहनाज गिल बिग बॉस 13 में हिस्सा लेने के बाद से सुर्खियों में छा गई थीं। इसके बाद उनके और दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के संग उनके लव अफेयर के चर्चे भी खूब मशहूर हुए थे। पर्सनल लाइफ से परे अगर शहनाज की कमाई की बात करें तो एक्ट्रेस करोड़ों की मालकिन हैं। जी हाँ, शहनाज सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट से लाखों रुपये कमाती हैं और इसके अलावा उनके पास विज्ञापन और फिल्में भी हैं। तो चलिए शहनाज गिल की नेट वर्थ के बारे में आपको बताते हैं। शहनाज गिल बिग बॉस 13 का खास हिस्सा थीं और उन्होंने आखिर तक बढ़िया गेम खेला था। यही से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी और वह फैंस के बीच मशहूर हो गई थीं। शहनाज गिल बिग बॉस के घर में रहने के लिए हर हफ्ते के 4.5 लाख रुपये चार्ज करती थीं। शहनाज गिल के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स 11.5 मिलियन के करीब हैं। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी एक्टिव रहती हैं और आर्पदिन कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती हैं। किसी भी पोस्ट को अपने अकाउंट से शेयर करने के लिए शहनाज 8 से 10 लाख रुपये चार्ज करती हैं। शहनाज गिल के पास कार कलेक्शन भी धांसू है। जी हाँ, एक्ट्रेस को लक्जरी कारों का काफी शौक है और उनके कार कलेक्शन में दो करोड़ रुपये की Mercedes-Benz S-Class, 1.2 करोड़ रुपये की Jaguar XJ और 65 लाख रुपये की Range Rover मौजूद है।

कितनी है कुल कमाई और संपत्ति- शहनाज गिल की सिर्फ महीने भर की कमाई की बात करें तो वह 25 लाख रुपये कमाती हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट्स या विज्ञापनों के जरिए एक्ट्रेस 3 करोड़ रुपये के आस-पास की कमाई करती हैं।

## निया शर्मा को नहीं मिल रहा कोई काम, बोली-ब्रेक पर नहीं हूँ भिखारी हो गई हूँ

टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने कई सीरियल्स में काम किया है और उनकी एक्टिंग को लोगों ने पसंद भी किया। सिर्फ यही नहीं निया कई म्यूजिक एल्बम में भी नजर आ चुकी हैं। निया के फैंस उन्हें टीवी सीरियल्स में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई



बार लोग उनके कमेंट बॉक्स में भी इस बारे में पूछ चुके हैं। लेकिन अब खबर है कि एक्ट्रेस के पास पिछले कुछ वक से कोई काम नहीं है। निया ने खुद एक्टिंग से दूर रहने की खबरों पर चुपची टोड़ते हुए बताया कि उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया है और अब वह काफी मुश्किल वक से गुजर रही हैं।

निया शर्मा का नया म्यूजिक वीडियो हैरान होगा रिलीज-निया शर्मा इन दिनों अपने म्यूजिक वीडियो हैरान को लेकर चर्चा में हैं। ये एल्बम जल्द ही रिलीज होने वाला है और एक्ट्रेस इसका प्रमोशन कर रही हैं। निया ने कहा, काफी लोगों को लगता है कि मैंने एक्टिंग से ब्रेक लिया है लेकिन ऐसा नहीं है।

मैं भिखारी हूँ, मुझे काम चाहिए- निया ने आगे कहा, हम वो लोग नहीं हैं जो काम से कभी ब्रेक लेंगे। न हमारी अभी ऐसी कोई उम्र है कि हमें ब्रेक लेने की जरूरत पड़े। मैं अभी भी एक भिखारी हूँ, जिसे काम और पैसे चाहिए। मैं कभी नहीं कह सकती कि मुझे ब्रेक चाहिए। मुझे लाइफ में कभी भी ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे हमेशा ही काम करना पसंद है।

## आमना शरीफ ने रेड हॉट लुक में बढ़ाई फैनस के दिलों की धड़कन

टीवी की दुनिया की जानी-मानी एक्ट्रेस आमना शरीफ इंस्टाग्राम पर आज किसी सेंसेशन से कम नहीं हैं और वो अक्सर अपने क्लासी और ग्लैमस लुक से फैनस को दीवाना बनाती नजर आती हैं। अपनी इन हालिया तस्वीरों में आमना शरीफ का लुक देख कर कोई उनकी तारीफों के पुल बांधता नजर आ रहा है। इन लेटेस्ट फोटोज में आमना शरीफ रेड कलर की आउटफिट में फैनस के दिलों की धड़कन बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। अक्सर अपने बोल्ड एंड स्टायलिश लुक को लेकर चर्चा में रहने वाली आमना शरीफ की ये तस्वीरें इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गई हैं। इन तस्वीरों में आमना शरीफ ने अपने लुक को न्यूड मेकअप और ओपन हेयर स्टायल के साथ कम्प्लीट किया और कैमरे के सामने मिलियन डॉलर के पोर्ज दिए। सोशल मीडिया पर आमना शरीफ के लाखों फैनस हैं, जो उनकी तस्वीरों पर दिल खोलकर लाइक और कमेंट्स करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले आमना शरीफ व्हाइट टॉप और डेनिम जींस में के साथ गले में गोल्डन चेन पहने नजर आई थीं। वर्कफ्रंट की बात करें तो आमना की हाल ही में डैमेज 3 वेब रिलीज हुई है, इसके अलावा वो आधा इश्क वेब सीरीज में भी नजर आने वाली हैं।

## क्या नहाने के बाद भी नहीं जा रही हैं शरीर की गंध? इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं

इन कारणों की वजह से आपके शरीर से नहाने के बाद भी दुर्गंध आ सकती है। इसलिए जानिए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। हम सभी को पसीना आता है, लेकिन गंध कुछ ही लोगों के पसीने में से आती है। कुछ लोग शरीर की गंध से परेशान रहते हैं। हालाँकि, नहाने और परफ्यूम लगाने के बाद यह गंध कुछ समय के लिए गायब हो सकती है पर हमेशा के लिए नहीं। अगर क्या नहाने के बाद भी आपको शरीर की दुर्गंध से छुटकारा नहीं मिल रहा है? यदि आपके साथ भी ऐसी ही समस्या आ रही है, तो आपको शरीर की गंध के कारणों के बारे में जानना चाहिए शरीर की गंध के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए और इससे छुटकारा पाने के तरीकों को समझने के लिए हेल्थ शॉर्ट्स ने, केएमसी अस्पताल, डॉ.बी.आर.अंबेडकर सर्कल, मंगलौर के सलाहकार-त्वचा विज्ञान, डॉ. प्रमोद कुमार से बात की। डॉ. कुमार कहते हैं, हर व्यक्ति के शरीर की अपनी अलग गंध होती है। शरीर कई पदार्थों का उत्पादन करता है, जो सामान्य शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। ये पदार्थ अधिक मात्रा में या बाहरी स्रोतों द्वारा कार्य करने पर दुर्गंधयुक्त हो सकते हैं। इन्हें कहते हैं, पसीना, हालाँकि गंधहीन होता है, लेकिन जब त्वचा पर बैक्टीरिया द्वारा तोड़ा जाता है, तो यह बदबू का कारण बन सकता है।



1. **हार्मोन**-अत्यधिक पसीना आना और शरीर से दुर्गंध आना हार्मोनल उतार-चढ़ाव के कारण हो सकता है। डॉ. कुमार के अनुसार, यौवन, गर्भावस्था, प्रीमेनोपॉजल, रजोनिवृत्ति के दौरान शरीर से अलग तरह की गंध आ सकती है, क्योंकि हार्मोनल और पसीने की ग्रंथि में वृद्धि होती है। इस अवस्था के दौरान महिलाओं को हॉट फ्लैश और रात को पसीना आता है, जिससे पसीना और गंध बढ़ जाती है।

2. **कुछ रोग**-अत्यधिक पसीने का कोई भी कारण शरीर से दुर्गंध आने की संभावना को बढ़ा देता है। पसीना कुछ चिकित्सीय स्थितियों और बीमारियों, जैसे मधुमेह, मोटापा, थायराइड, गुर्दे की बीमारियों, लिबर रोग, संक्रामक रोगों और गठिया के कारण भी हो सकता है, जिससे शरीर की गंध में वृद्धि हो सकती है। यदि आप अपने शरीर की गंध में अचानक बदलाव देखते हैं, तो आपको इन बीमारियों के अन्य लक्षणों की जांच करनी चाहिए और डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।

3. **मसालेदार भोजन**-डॉ. कुमार के अनुसार, मसालेदार भोजन, प्याज, लहसुन, शराब और कैफेीन के अत्यधिक सेवन से भी पसीने में बदबू आ सकती है। यहां तक कि, प्रोटीन का ज्यादा सेवन करने से भी शरीर की गंध बढ़ सकती है।

4. **तनाव**-शरीर की गंध उन लोगों में आम है जो चिंतित, घबराए हुए या तनावग्रस्त हैं। अगर आपको अजीब सी महक आ रही है, तो शायद आपका शरीर बहुत तनाव में है।

5. **अन्य कारण**-इन कारकों के अलावा, गर्म मौसम, इंटेस वर्कआउट रूटीन, नियमित रूप से शराब का सेवन, अंडरवियर और ब्रा की नियमित रूप से न बदलना, सिंथेटिक कपड़े पहनना और अधिक चीनी का सेवन, शरीर की गंध में योगदान कर सकते हैं।

## मॉनसून में रूखे और उलझे बालों को दें हॉट ऑयल चंपी और पाएं नई सी चमक

बसरात का मौसम अच्छा तो लगता है और इसमें धीमे धीमे का भी अलग मज़ा है। पर इसके बाद आपके बालों को बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। डॉट वरी मां के पास उसका भी इलाज है। गर्मी के मौसम में बीते दिनों हुई बारिश ने सभी को कुछ दिनों के लिए राहत की सांस लेने का मौका दिया। साल की पहली बारिश थी मैं भी बारिश में भीगी ली, लेकिन उसके बाद नहाने के बावजूद भी जो मेरे बालों का जो हाल हुआ वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। बालों में अच्छे से शैम्पू और कंडीशनर लगाने के बाद भी, मेरे बाल रूखे-सूखे और उलझे हुए नजर आ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये बारिश के पानी की वजह से है या वातावरण में नमी के कारण। मेरे बाल धुंधलाने हैं और ऐसे में ये और भी ज्यादा उलझे हुए नजर आ रहे थे। तभी मम्मी ने थोड़ा सा नायिल तेल लेकर गर्म किया और मेरे बालों में अच्छे से चंपी कर दी। फिर बोलों की सुबह बाल धो लेना (वाकई मैं हॉट ऑयल चंपी में किसी चमकार को तरह काम किया और एक वॉश के बाद ही बाल इतने स्मूद हो गए कि क्या बताएं। तभी मैंने हॉट ऑयल चंपी के बारे में पढ़ने की कोशिश की और देखिये मुझे क्या मिला?

1. **बालों को झड़ने और टूटने से बचाएं**-हॉट ऑयल चंपी न केवल स्कैल्प में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर बालों को स्वस्थ बनती है, बल्कि ये बालों को झड़ने और टूटने से भी रोकती है। अपने स्कैल्प को स्वस्थ रखने से बालों के रोम हाइड्रेटेड रहते हैं और इनका टूटना न के बराबर हो जाता है।

2. **रूखेपन और फिज्ज को दूर रखें**-मॉनसून के दौरान बाल और उलझते लगते हैं। ऐसे में बाल और भी ज्यादा डैमेज्ड हो सकते हैं। गर्म तेल से मालिश एक सरल और त्वरित घरेलू उपाय है जिससे सूखे और उलझे बालों को हाइड्रेटेशन प्रदान करके फिज्ज को कम किया जा सकता है।



## भारत बनाएगा साल में सबसे ज्यादा टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 में कम से कम 34 मैच खेलेगी टीम इंडिया, पाक को पीछे छोड़ेगी

नई दिल्ली। क्रिकेट की दुनिया में टी20 का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ओर IPL में टीमों और मैचों की संख्या बढ़

संजय मांजरेकर का बड़ा बयान, जडेजा को टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलना मुश्किल; उनसे आगे ये खिलाड़ी



गई है, वहीं दूसरी ओर अब भारतीय टीम भी इस फॉर्मेट में पहले से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने लगी है। 2022 में भारत एक साल में सबसे ज्यादा 320 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। फिहालत यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है जो साल के अंत तक टूट जाएगा।

उसके मुताबिक भारत को कम से कम 23 मैच और खेलने हैं। यानी, इस साल के अंत तक भारतीय टीम हर हाल में 34 मैच खेल लेगी और पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ देगी। पाकिस्तान ने पिछले साल 29 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल कर रिकॉर्ड बनाया था।

**वर्ल्ड कप तक मैचों की भरमार**-भारत ने इस साल अब तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 और श्रीलंका व वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-2 मैच खेले हैं। टीम 26 और 28 जून को आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज खेलने वाली है। इसके बाद जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में 3 टी-20 मैचों की सीरीज होगी। जुलाई के आखिर से भारत को वेस्टइंडीज दौर पर भी 5 टी20 इंटरनेशनल खेलने हैं।

**एशिया कप में होंगे कम से कम 5 मुकाबले**-अगस्त-सितंबर में श्रीलंका में एशिया कप का आयोजन होगा है। 2018 में एशिया कप वनडे फॉर्मेट में हुआ था। लेकिन, इस बार वर्ल्ड कप देखते हुए टी20 फॉर्मेट में आयोजित होगा। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में कम से कम 5 मैच खेलेगी। अगर टीम फइनल में पहुंचती है मैचों की संख्या 6 हो जाएगी।

**हमारा वतन**  
खबरों, विज्ञापन एवं सदस्यता के लिए सम्पर्क करें।  
Email- hamarawatan65@gmail.com  
9214996258, 7014468512

# हमारा वतन साप्ताहिक

Hamara WATAN Weekly

संस्थापित 1965

राष्ट्रीय विचारधारा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति का प्रतीक

क्या खाक़ लिखे कोई, बरग़शा ज़माना है,  
कांटों पै भी चलना है, दामन भी बचाना है।

## चुनौतियों से पार पाती भारतीय अर्थव्यवस्था पर अब भी बहुत कुछ करना बाकी

निसंदेह हमें कारोबार सुगमता नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान स्तर एवं विभिन्न वैश्विक रैंकिंग में आगे बढ़ते कदमों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभी विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार की जरूरत है। जैसे कि देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च बढ़ाना होगा। इस समय वैश्विक मंदी की आइट का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर हो रहा है, जैसे कि सेंसेक्स में बढ़ी गिरावट आई है, डालर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है और ब्याज की बढ़ती दरों एवं पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई का ग्राफ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद पिछले सात-आठ वर्षों में हुए आर्थिक सुधारों और नवाचार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के माहौल में भी गतिशील बनी हुई है। इसकी गवाही हाल में प्रकाशित विभिन्न प्रमुख वैश्विक संगठनों की रिपोर्ट भी दे रही है। गत 15 जून को इंस्टीट्यूट फार मैनेजमेंट डेवलपमेंट के वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक-2022 में भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज सुधार का तमगा प्राप्त किया। वैश्विक रैंकिंग में भी भारत ने छह पादान की जोरदार छलांग लगाई है। 63 देशों के इस सूचकांक में भारत 43वें से 37वें स्थान पर आ गया है। मुख्य रूप से आर्थिक मोर्चे पर प्रदर्शन में सुधार से प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत की स्थिति सुधरी है। यह महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों जब अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा दुनिया के कई देशों की रेटिंग घटाकर नकारात्मक की गई, तब भारत की रेटिंग में सुधार का संतोषजनक परिदृश्य दिखाई दे रहा है। दुनिया की तीनों बड़ी रेटिंग एजेंसियों फिच, मूडीज और एसएंडपी की नजर में भारत की लंबी अवधि का आर्थिक परिदृश्य अब स्थिर हो गया है। फिच ने पिछले दो वर्षों से भारत को लगातार दी जा रही नकारात्मक रेटिंग को सुधारकर स्थिर रेटिंग में उन्नत किया है। फिच ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोरोना महामारी के बाद जोरदार वापसी की है। आर्थिक और वित्तीय सुधार लागू किए हैं। बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश किया है। इन सबके नियात, निवेश और विकास दर बढ़ने में मदद मिल रही है। अमेरिकी संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कोरोना की तीन लहरों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जोरदार तरीके से वापसी की है। इसमें भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान की भी खूब प्रशंसा की गई है।



राम गोपाल सैनी

## नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की मीटिंग का हुआ आयोजन

चौमू (हमारा वतन) शहर के एम्बो प्लाजा में नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में नमस्ते इंडिया ब्रांड के प्रोडक्ट के



बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई और जल्द ही आने वाले नए प्रोडक्ट के बारे में भी विस्तार से समझाया गया।

लकी डू का हुआ आयोजन साथ ही मीटिंग में उपस्थित होने वाले

रिटैलर बंधुओं के लिए लकी डू का आयोजन किया गया जिसमें अंकित किराना हस्तेड, खुशी ट्रेडर्स चौमू, कृष्ण कुमार संजय कुमार चौमू के लकी डू निकला, जिसमें तीनों को वाटर कैमरा प्रदान किए गए। मीटिंग में नमस्ते इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड के सुनील गुप्ता एसएम, गौरव कटिया एसएम, कुलदीप शर्मा एसओ, गोपाल सिंह एलडी, श्याम मराठ टीएसआई, डिस्ट्रीब्यूटर गोयल ट्रेडिंग कंपनी के कृष्ण कुमार गोयल, विष्णु कुमार गोयल रहे। इस दौरान मुरलीधर महेश कुमार, पूरणमल बाबूलाल प्रदीप किराना स्टोर, जानदवा किराना स्टोर, शिव किराना स्टोर, शंकर लाल महेंद्र कुमार शिव एंड कंपनी, श्रीनाथ किराना, जिनवल एंटरप्राइजेज आदि के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

### अति आवश्यक सूचना

पाठकों व विज्ञापनदाताओं से निवेदन है कि जिनका सालाना सदस्यता शुल्क व विज्ञापनों का भुगतान नहीं हो पाया है वे अपना शुल्क 'हमारा वतन वीकली' के नाम से खाता संख्या 61079058819' एसबीआई (IFSC Code- SBIN0004227) में या 9214996258 पर फोन-पे, पीटीएम, गुगल-पे पर जमा कराकर सूचित करें।

- सम्पादक

पुनीत प्रतिष्ठा में :-



## पुण्यतिथि पर देवीलाल आई हॉस्पिटल में हुआ 350 मरीजों का निःशुल्क उपचार

जयपुर (हमारा वतन) शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित देवीलाल मेमोरियल आई हॉस्पिटल चौमू द्वारा प्रेरणास्रोत एवं मार्गदर्शक स्वयंसेवी श्री देवी लाल कुमावत (डेकेदार जी) की 9वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर निःशुल्क नेत्र रोग शिविर का आयोजन किया गया। अस्पताल निदेशक विमल कुमावत ने बताया कि शिविर में 350 मरीजों को निःशुल्क जांच करके उचित परामर्श के साथ उपचार किया गया। शिविर में आए सभी मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराईं। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील कुमावत एवं डॉ. शशांत समदानी ने अपनी सेवाएं दीं। शिविर की शुरुआत से पहले अस्पताल के

संरक्षक ललित कुमावत द्वारा स्व. श्री देवी लाल जी की प्रतिमा को माल्यापण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

एच.कोमा एंड फेको सर्जन डॉ. सुनील कुमावत ने बताया कि निःशुल्क शिविर में सभी प्रकार के मरीज आते हैं लेकिन निर्धन एवं असहाय मरीजों का उपचार करने पर, अत्यधिक खुशी एवं संतुष्टि का अनुभव होता है। शिविर के मरीजों में से 30 मरीजों को मोतियाबिंद, नखुना एवं नासूर के ऑपरेशन हेतु अंकित किया गया। आज का शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील कुमावत एवं डॉ. शशांत समदानी ने अपनी सेवाएं दीं। शिविर की शुरुआत से पहले अस्पताल के

आयोजन भविय में भी जारी रखें जाएंगे। अस्पताल में रामस्वरूप कुमावत, ज्ञानेश्वर शर्मा, बजरंग लाल, बाबू लाल, सुशील कुमावत, डॉ. रोहित कुमावत, डॉ. साधना कुमावत, कैलाश तिवारी, सुकेश शर्मा, सुनील यादव, सोहन लाल, शिवराम, मनजीत स्वामी, सुरेंद्र चौधरी, पुनीत कुमावत, राजकरण, राजेश खींची, मालीराम यादव, प्रमोद यादव, विशाल कुमावत, मनीषा खींची, सीताराम, संजु यादव, पूजा नायक, मंजु पलसानिया, अंजु मीणा, संतोष कंवर, शिवम संपूर्ण रूप से हैं मानवता के लिए समर्पित हैं। स्वयंसेवी श्री देवी लाल जी हमारे आदर्श हैं तथा उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप इस तरह के

पूर्व विधायक सैनी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्री बीडी कल्ला का जताया आभार



चौमू (हमारा वतन) में विधायक भवान सहय सैनी की अनुप्रासा पर चौमू विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मरीजों की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को त्रिकुटिया को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। पूर्व विधायक सैनी ने बताया कि आज आधुनिक युग में हर गरीब किसान व मजदूर को इच्छा होती है कि उसका बेटा व बेटी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़े लेकिन महंगाई के इस दौर में गरीब किसान व मजदूर अपनी संतानों को मंडेगी निजी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नहीं पढ़ा पाते थे। इन्हीं जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने राजस्थान में 211 नये अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वीकृत किये हैं।

## भविष्यवक्ता पंडित रविन्द्राचार्य ने राज्यसभा सांसद ओम माधुर से की मुलाकात

अजमेर (हमारा वतन) अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता पंडित रविन्द्राचार्य ने किसानगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली जाते समय किसानगढ़ से दिल्ली जाते समय राज्यसभा सांसद ओम माधुर से मुलाकात की। पंडित रविन्द्राचार्य ने राज्यसभा सांसद ओम माधुर से कई राजनीतिक बातों पर चर्चा की और बाबा श्याम का आशीर्वाद स्वरूप श्याम कलम देकर सम्मान किया। इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर खाटू श्याम जी आने का निमंत्रण दिया। इस दौरान किसानगढ़ एयरपोर्ट डायरेक्टर बीएस मीणा, टर्मिनल मैनेजर निधि गोयल, सुमित बंसल आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे।



## विराज फाउंडेशन मनाएगा चिकित्सक दिवस

जयपुर (हमारा वतन) विराज फाउंडेशन के तत्वाधान में जयपुर रोड स्थित जयपुर हेल्थ केयर हॉस्पिटल में बैटक आयोजित हुई। प्रदेश प्रवक्ता (चिकित्सा प्रकोष्ठ) डॉ. आर एस मानावत ने बताया की 30 जून 2022 को चिकित्सक दिवस को पूर्व संस्था पर जयपुर रोड स्थित जयपुर हेल्थ केयर हॉस्पिटल पर चिकित्सक दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान क्षेत्र के सभी चिकित्सकों का सम्मान किया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष भुवनेश तिवारी, प्रदेश महासचिव बनवारी लाल शर्मा, डॉ. आर के सैनी, मनोज शर्मा, बंटी सैनी, दीपक प्रजापत आदि लोग उपस्थित रहे।



## ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन

जयपुर (हमारा वतन) राजस्थान राज्य भारत स्काउट गइड जिला मुख्यालय जालोर द्वारा आयोजित रूप स्तरीय 40 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर शांति बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय रामदेव कॉलोनी जालोर में समापन पूर्वक समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कसतुराराम बामणिगा अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं अध्यक्षता एम.आर वर्मा जिला संगठन आयुक्त स्काउट जालोर ने की, विशिष्ट अतिथि अजय चौहान प्रदेशाध्यक्ष भारतीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद राजस्थान रहे। इस अवसर पर छत्र-छात्राओं द्वारा शिविर में सिखाई गई विभिन्न कलाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाले छत्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छत्र-छात्राओं ने बहुर-चक्रक भाग लिया। शिविर को सफल बनाने में कानाराम भारद्वाज, छानलाल एवं स्टाफगण का बहुत बड़ा योगदान रहा।



Mohan Lal Jitarwal  
Jaisingh Jitarwal

# मोनिका प्रिन्टर्स

WE DESIGN, PRINT & PROMOTE...YOU! थाना मोड़, चौमू

फ्लैट/स/विनायल ऑफसेट प्रिंटिंग पोस्टर/पम्पलेट विल-बुक लैटर हेड

शादी कार्ड सवामणी कार्ड स्क्रिन प्रिंटिंग विजिटिंग कार्ड आई-कार्ड

हमारे यहाँ प्रिंटिंग से सम्बन्धित सभी कार्य उचित रेट पर किये जाते हैं

तथा चुनाव से सम्बन्धित सामग्री उचित रेट पर तैयार की जाती है।

एक बार सेवा का मोका अवश्य दें

Contact Us: 9785850646, 8946910073, 7610022192

monikaprinters68@gmail.com